



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930

No. 128]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

का.आ. 209(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अर्थात् कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के हुबली धारवाड़ बाईपास (एनएच 4 के 403/800 किलोमीटर से आरम्भ होकर और 433/200 किलोमीटर पर पुनः मिलने वाले) तरीहल सड़क संधिस्थल पर सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उदगृहीत और संगृहीत की जाएगी और मैसर्स नंदी हाईवे डेवेलपर्स लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सं. 1, मीडफोर्ड हाऊस, मीडफोर्ड गार्डन आफिस, एम जी रोड, बंगलौर-560001 पर स्थित है, से हुए करार को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के हुबली धारवाड़ (एनएच 4 के 403/800 किलोमीटर से आरम्भ होकर और 433/200 किलोमीटर पर पुनः मिलने वाले) तरीहल सड़क संधिस्थल के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए उक्त मैसर्स नंदी हाईवे डेवेलपर्स लिमिटेड या इसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को तक यातायात के आरम्भ की तारीख से 5 मई, 2024 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत करने को प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर हुबली धारवाड़ उपमार्ग पर तरीहल सड़क संधिस्थल पर उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

क्र. सं.	यान का प्रवर्ग	फीस प्रवर्ग ख, रुपए में प्रति यान प्रति बार	फीस प्रवर्ग कख, रुपए में प्रति यान प्रति बार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कार या जीप या वैन	21.00	15.00
2.	बस	77.00	24.00
3.	ट्रक	94.00	29.00
4.	हल्के वाणिज्यिक यान	57.00	17.00
5.	बहु-धुरी यान	91.00	26.00

**फीस प्रवर्ग**

**फीस प्रवर्ग ख :** तरीहल सड़क संधिस्थल से आने वाले और हुबली या धारवाड़ अंत या गोवा सड़क क्रासिंग की ओर जाने वाले और इसके विपरीत आने-जाने वाले यान ।

**फीस प्रवर्ग कख :** तरीहल सड़क संधिस्थल से आने वाले और कलघाटगी सड़क क्रासिंग या करवाड सड़क संधिस्थल या अयोध्या नगर संधिस्थल की ओर जाने वाले और इसके विपरीत आने-जाने वाले यान ।

**टिप्पण**

1. फीस प्रवर्ग तय की जाने वाली दूरी पर आधारित है ।
2. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन का उपयोग करना हो तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले की चक्कर में राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन का उपयोग करते समय उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर दर का डेढ़ गुना संदत्त करे या यदि यान को पूरे मास में या उसके बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन का बार-बार उपयोग करना हो तो यान का स्वामी तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

**स्पष्टीकरण :** “दिन” की संगणना चौबीस घंटे की निरंतर अवधि के रूप में की जाएगी ।

3. निम्नलिखित प्रकार के यान अनुसूची में उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त होंगे अर्थात् :-

(i) यान,-

(अ) जो “अति महत्वपूर्ण व्यक्ति” प्रतीक वाले या सरकारी तौर पर निम्नलिखित के हैं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ के राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल;
- (घ) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) “सीडी”/“सीसी” नंबर प्लेटों के कार का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद् के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या संघ या राज्य के मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा अथवा राज्य विधान मंडलों में विरोधी दल के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, यदि वे स्वयं यान में बैठे हों; या
- (छ) संसद सदस्य, सम्पूर्ण देश में या राज्य विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य अपने-अपने राज्यों में, यदि वह यथास्थिति, संसद या संबद्ध राज्य विधान मंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत करता है ।

(ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्निशमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ यान ।

4. फीस की उपरोक्त दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता और टेलीफोन संख्या जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकती है, पथकर चौकी से 500 मीटर पहले, पथकर चौकी से 100 मीटर पहले और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी । संप्रदर्शन बोर्डों की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार हो जिससे चालक को संप्रदर्शन बोर्ड पढ़ने में आसानी हो और उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा में जिसमें स्थाई पुल स्थित है, स्पष्ट रूप से लिखे या मुद्रित किए जाएंगे ।
5. प्रत्येक चालक, मालिक या यांत्रिक यान का प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन का उपयोग करने के पहले या इसे पार करने के पश्चात् पारगामी अवरोध पर अपना यान रोकेंगा और फीस संग्रहण चौकी पर यानों की बाबत उद्ग्रहणीय फीस संदत्त करेगा । राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन को पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस संग्रहण करने के लिए रियायत कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति चालक या मालिक या यांत्रिक यान के प्रभारी को फीस संग्रहण की रसीद जारी करेगा ।
6. किसी ऐसे यांत्रिक यान जो उक्त अनुसूची में नहीं आता है, से कोई फीस उदगृहीत या संगृहीत नहीं की जाएगी ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/62/2003-केएनटी (पी. 7)]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2009

**S.O. 209(E).**— In exercise of the powers conferred by Sections 7 and 8A of National Highways Act, 1956, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of section of National Highways i.e. Tarihal Road Interchange on Hubli-Dharwad Bypass (starting at Km. 403/800 of NH-4 and rejoining at Km. 433/200) of NH-4 in the State of Karnataka, at the rates specified in Schedule annexed hereto, and having regard to the agreement entered into with M/s. Nandi Highways Developers Limited, having its registered office at No.1, Midford House, Midford Gardens Off: M.G. Road, Bangalore-560001, to build, operate and transfer the Tarihal Road Interchange on Hubli-Dharwad Bypass, starting at Km 403/800 of NH-4 and rejoining at Km. 433/200 of NH-4 in the state of Karnataka and for service provided by it, hereby authorises the said M/s. Nandi Highways Developers Limited or its authorised legal representative to collect the fees at the rates specified in the said Schedule from the date of its opening to traffic till 5th May, 2024.

**SCHEDULE****(Rates to be recovered from users of Tarihal Road Interchange on Hubli-Dharwad Bypass on National Highway No. 4)**

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee Category B, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category AB, in Rupees, per Vehicle per Trip
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Car or Jeep or Van	21.00	15.00
2.	Bus	77.00	24.00
3.	Truck	94.00	29.00
4.	Light Commercial Vehicle	57.00	17.00
5.	Multi-axle Vehicle	91.00	26.00

**Fee Category :**

**Fee Category B :** Vehicles entering from Tarihal Road Interchange and leaving towards Hubli or Dharwad end or Goa Road Crossing and vice versa.

**Fee Category AB :** Vehicles entering from Tarihal Road Interchange and leaving towards Kalghatgi Road crossing or Karwar Road Interchange or Ayodhyanagar Interchange and vice versa.

**NOTE:**

1. Fee categories are based on the distance covered.
2. When the same vehicle has to use section of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay one and a half times the rates specified in the Schedule above while using section of the National Highway in the first trip itself or if the vehicle has to use the section of the National Highway quite frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to thirty single rates.

**Explanation :—** “day” shall be counted as a continuous period of twenty four hours.

3. The following types of vehicles are exempted from the fees specified above in the Schedule, namely :—

**(i) Vehicles—**

**(A) having “VIP” symbols or officially belonging to :—**

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State or Lt. Governor of Union Territory;
- (d) a Foreign dignitary on the State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with “CD”/“CC” number plates;

- (f) Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or
- (g) Member of Parliament, in the entire country, or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of State, as the case may be;
- (B) Belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardees produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire Fighting vehicles, Ambulances, Funeral Vans, Vehicles of the Department of Posts and Telegraphs and Central Government and State Government vehicles on duty.
- 4. The above mentioned rate of fees, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booth also. The height of the display boards and size of the letters being such that it is easy for drivers to read the display boards both legibly written or printed in English, Hindi and vernacular language in which the permanent bridge is situated.
- 5. Every driver, owner or person incharge of the mechanical vehicles shall before using section of the National Highway or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicles at the fee collection booth. The person authorised by the concession company to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the section of the National Highway shall issue a receipt to the driver or owner of person incharge of the mechanical vehicle.
- 6. No fees shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered by the said Schedule.

[F. No. RW/NH-12037/62/2003-KNT (P. 7)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.